



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 577 राँची, शुक्रवार 16 कार्तिक 1936 (श०)
7 नवम्बर, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

24 अक्टूबर, 2014

संख्या-11/लो०से०आ०-103/2000 का० 10471--कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना सं०-6/लो०से०आ०-103/2000 का-117 दिनांक-16 जनवरी, 2001 द्वारा प्रवृत्त झारखण्ड लोक सेवा आयोग (सेवा शर्तें) विनियम, 2000 के भाग-3 नियम- 6(1) की कंडिका 'ग' के ठीक नीचे निम्न रूप से एक अतिरिक्त कंडिका 'घ' जोड़ी जाती है:-

“घ.) अध्यक्ष/सदस्यों को एक कैलेण्डर वर्ष में कुल बारह आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होंगे।”

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 577-50 ।